



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65]  
No. 65]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 1983/फाल्गुन 4, 1904  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 1983/PHALGUNA 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय  
(श्रम विभाग)

अधिसूचना,

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1983

का० आ० 99 (अ) —मजदूरी सदाय (खान) नियम, 1956 में  
और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, मजदूरी सदाय अधि-  
नियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा  
26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के  
भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 545 (अ)  
तारीख 27 अगस्त, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण,  
भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 27 अगस्त, 1982 पृष्ठ 1-2  
पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन  
की तारीख से तीन मास के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और  
सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है;

और उक्त राजपत्र 27 अगस्त, 1982 को जतता को उपलब्ध करा  
दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को जतता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप  
और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 26 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मजदूरी सदाय (खान) नियम, 1956  
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1380 GI/82

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी सदाय (खान) संशोधन  
नियम, 1983 है।

2. (क) मजदूरी सदाय (खान) नियम, 1956 के, जिसे इसमें  
इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, नियम 2 में खण्ड (च) के  
पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् “(चच) ‘उप-  
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)’ से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतियत में  
नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।”

(ख) उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (टट) नियम 2क के उप-  
नियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6); नियम 9, नियम  
10, नियम 11, नियम 13 के उपनियम (2) के परन्तुक, नियम 18  
और नियम 19 के उपनियम (1) में, “प्रादेशिक श्रम आयुक्त” शब्दों  
के पश्चात् “(केन्द्रीय)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (6) और नियम 4 में  
“मुख्य श्रम आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)”  
शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 5 में “मजदूरी का रजिस्टर प्रारूप 3 में  
और कार्यस्थल पर, मजदूरी के भुगतान के रूप में रखा जाएगा” के स्थान  
पर “मजदूरी का रजिस्टर प्रारूप 3 में अव्यवस्थित रूप में रखा जाएगा और  
कार्यस्थल पर मजदूरी के भुगतान के सबूत में रखा जाएगा।” और  
“मुख्य श्रम आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)”  
शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 5-ख में "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में "तीन वर्षों की अवधि तक परिरक्षित रखा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्षों की अवधि तक कार्यस्थल पर या यदि नियोजक उसकी कार्यस्थल पर रखने में कठिनाई अनुभव करे तो प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य सम्पत्ति स्थान पर परिरक्षित रखा जाएगा" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) में, —

(क) खण्ड (1) और (2) का त्रयण खण्ड (2) और (3) के रूप में पुनर्संयोजित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संयोजित खण्ड (2) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(क) मजदूरी की अवधि जिस के लिए मजदूरी संदेय है।"

(ख) खण्ड (3) के अंत में "और" शब्द जोड़ा जाएगा;

(ग) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"(4) सुसंगत मजदूरी की अवधि को विनिश्चित करते हुए बहुविध दिन जिसका/जिनका अवसक्त मजदूरी का संदाय किया जाना है"

8. उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"8क. संदाय का पर्यवेक्षण

जब कभी निरीक्षक द्वारा इस प्रकार निर्देश दिया जाए, नियोजक या कार्यस्थल पर उसका प्रतिनिधि संदाय की अधिसूचित तारीख को निरीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन, नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी का संदाय करेगा।"

9. उक्त नियमों के नियम 17 के उपनियम (1) के परन्तुक में "मुख्य श्रम आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के प्रारूप 5 में, मव 3 (क), (ख) और (घ) और मव 4 और 5 में आने वाले "400 रु०" अंकों के स्थान पर "1000 रु०" अंक रखे जाएंगे।

[एस०-31012/11/79- डब्ल्यू० सी० (पी० डब्ल्यू०)]

एस० एल० मेहता, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1983

**G.S.R. 99(E).**—Whereas certain draft rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules 1956 were published as required by sub-section (2) and (3) of section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936) at pages 1-2 of the Extraordinary Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th August 1982 under the notification of the late Ministry of Labour No. G.S.R. 545(E) dated the 27th August, 1982 inviting objections and suggestions from all concerned likely to be affected thereby, within three months from the date of publication of the notification in the official gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th August, 1982;

And whereas no objections and suggestions have been received on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules 1956, namely :—

1. These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1983;

2(a) In rule 2 of the Payment of Wages (Mines) Rules 1956, hereinafter referred to as the said rules, after clause (f) the following clause shall be inserted, namely :—

"(ff) "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)" means an officer appointed as such by the Central Government ;"

(b) in clause (kk) of rule 2, sub-rule (1), (2), (3), (4), (5) and (6) of rule 2A; rule 9; rule 10; 11, proviso to sub-rule (2) of rule 13; rule 18 and sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, after the words, "Regional Labour Commissioner", brackets and the words "(Central)" shall be inserted.

3. In sub-rule 6 of rule 3 and rule 4 of the said rules, for the words "Chief Labour Commissioner", the words and brackets "Regional Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

4. In rule 5 of the said rules, the words, "up-to-date" shall be inserted between the words "shall be maintained" and "kept at the work spot", and for the words, "Chief Labour Commissioner", the words and brackets "Regional Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

5. In rule 5B of the said rules, for the words, "Chief Labour Commissioner", the words and brackets "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

6. In sub-rule (1) of rule 6 of the said rules, after the words, "made therein" the words and brackets, "at the work spot or where the employer experiences difficulty in keeping them at the work spot, at other suitable place approved by the Regional Labour Commissioner (Central) in this behalf" shall be added.

7. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1),

(a) clause (i) and (ii) shall be renumbered as clauses (i) and (iii) respectively and before clause (ii) so renumbered the following clause shall be inserted, namely :—

"(i) the wages period for which the wages are payable;"

(b) in clause (iii), the word "and" shall be added in the end,

(c) after clause (iii), the following clause shall be added, namely :—

"(iv) the day or days on which unpaid wages are to be paid, indicating the relevant wage period".

8. After rule 8, of the said rules, the following rules, shall be inserted, namely :—

"8A. Supervision of payment.—Whenever so directed by the inspector, the employer or his representative at the work spot shall pay wages to the employed persons on the notified date of payment under the supervision of the inspector".

9. In the proviso to sub-rule (1) of rule 17 of the said rules, for the words "Chief Labour Commissioner", the words and brackets, "Deputy Chief Labour Commissioner (Central)" shall be substituted.

10. In Form-V of the said rules, for the figures, "Rs. 400" appearing at items 3(a), (b) and (d) and items 4 and 5, the figures "Rs. 1000" shall be substituted.

[S-31012/11/79-WC (PW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.